



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1946 (श10)

(सं0 पटना 45) पटना, वृहस्पतिवार, 16 जनवरी 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2024

सं० 1स्था०-33/2024-3497/वि०स०—बिहार विधान सभा सचिवालय के आदेश ज्ञापांक-2स्था०-440/2020-920, दिनांक 12.03.2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/एम०-63/2023 सा०प्र०-10000, दिनांक 10.07.2015 जो सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें सविदा के आधार पर लेने के संबंध में हैं, में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-2स्था०-440/2020-927, दिनांक 13.03.2024 के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेशानुसार पूर्व में सेवानिवृत्त दो निदेशकों को सभा सचिवालय के कार्यरहित में निदेशक के पद पर सविदा आधारित नियोजन किया गया। इस क्रम में संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार से परामर्श प्राप्त किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त परामर्श के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/एम०-63/2023 सा०प्र०-10000, दिनांक 10.07.2015 को बिहार विधान सभा सचिवालय में अंगीकृत करते हुए बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम-22 सह-पठित नियम-26 में प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के तहत अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें सविदा के आधार पर लेने आदि के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :-

बिहार विधान सभा सचिवालय (सविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (सविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024 कहा जा सकेगा।
- बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 की अनुसूची के क्रम सं०-3 से 43 पर अंकित पदों पर सविदा आधारित नियोजन की जा सकेगी।

3. इस आदेश की कंडिका-2 में वर्णित पदों पर कार्यरत कर्मियों में से सेवानिवृत्त पदाधिकारी / कर्मचारी का सविदा आधारित नियोजन, सभा सचिवालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जा सकेगा ।

4. इस आदेश के प्रभावी होने के पूर्व में की गयी सविदा आधारित नियोजन एवं इस संदर्भ में ली गयी कार्रवाई इस आदेश के संगत उपबंधों के अध्याधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 45-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>